

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मुंबई स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की रंगाई और मरम्मत का कार्य

आरएफपी संदर्भ संख्या:- एमआरओ/एमआरओ/डीओसी/2025/00285

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)-

मुंबई स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की पेंटिंग और मरम्मत कार्य के लिए

ठेकेदार की नियुक्ति

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय,
राष्ट्रीय आवास बैंक
तीसरी मंजिल, बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग,
45, वीर नरीमन रोड,
फोर्ट, मुंबई - 400001, महाराष्ट्र
ई-मेल:romum@nhb.org.in

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मुंबई स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की रंगाई और मरम्मत का कार्य

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण		
1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री शुरू होने की तारीख	12.08.2025
2.	बोली पूर्व बैठक की तिथि (तिथि एवं समय)	18.08.2025, 3:00 बजे
3.	बोली दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	27.08.2025, 5:00 बजे
4.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	28.08.2025, 4:00 बजे
5.	बयाना जमा राशि	रु. 50,000/- (गैर-एमएसई/गैर-स्टार्ट-अप बोलीदाता के लिए)
6.	प्रतिभूति जमा करना	50,000/- रुपये (केवल कार्य आदेश जारी होने से पहले सफल बोलीदाता के लिए लागू, यदि ऐसे बोलीदाता को ईएमडी जमा करने से छूट दी गई थी। यदि सफल बोलीदाता द्वारा ईएमडी पहले ही जमा कर दी गई थी, तो इसे परिचालन में आसानी के लिए सुरक्षा जमा में परिवर्तित कर दिया जाएगा)
7.	बोली खोलने का स्थान	मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक तीसरी मंजिल, बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग, 45, वीर नरीमन रोड, फोर्ट, मुंबई – 400 001, महाराष्ट्र

टिपणी: -

- तकनीकी बोलियाँ उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएँगी जो उपरोक्त तिथि पर उपस्थित होना चाहते हैं। उपरोक्त कार्यक्रम में परिवर्तन हो सकता है। किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल नामित संपर्क अधिकारी द्वारा ईमेल के माध्यम से या राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करके दी जाएगी। इसके अलावा, कृपया ध्यान दें कि वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि, समय और स्थान तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को बाद में सूचित किया जाएगा।

2. राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के तहत स्थापित, भारत सरकार के तहत एक सांविधिक निकाय है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है-

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- अधिनियम के तहत प्राप्त पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना।
- आवास के लिए निर्माण योग्य भूमि की आपूर्ति में वृद्धि को प्रोत्साहित करना तथा देश में आवास स्टॉक को अद्यतित करना।
- सार्वजनिक एजेंसियों को आवास के लिए सेवायुक्त भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरने के लिए प्रोत्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा एक क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, गुवाहाटी, जयपुर, रायपुर चंडीगढ़, भुवनेश्वर, पटना और रांची में स्थित हैं।

3. उद्देश्य:

मुंबई स्थित बैंक के फ्लैटों की पेंटिंग और मरम्मत कार्य के लिए ठेकेदार का चयन।

4. वस्तुनिष्ठ:

यह सुनिश्चित करना कि फ्लैटों की पेंटिंग और मरम्मत का कार्य सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल/अनुबंध की सामान्य शर्तों के विनिर्देशों के अनुपालन में किया जाए।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मुंबई स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की रंगाई और मरम्मत का कार्य

5. कार्य का दायरा

आरबीआई/एसबीआई/पीएसबी/एफआई के सूचीबद्ध सिविल विक्रेताओं द्वारा मुंबई में निम्नलिखित स्थानों पर स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों के लिए "पेंटिंग और मरम्मत कार्य":

क्र.सं.	स्थान	फ्लैटों की संख्या	फ्लैट का आकार (लगभग वर्ग फुट में)
1	पार्क वेस्ट IV, रहेजा एस्टेट, बोरीवली (पूर्व), मुंबई-400066	12	695-699
2	मोरू महल, डॉ. अंबेडकर रोड, बांद्रा पश्चिम, मुंबई-400050	1	945

संभावित बोलीदाता बोली प्रस्तुत करने से पहले फ्लैटों का दौरा कर सकते हैं।

6. डिलिवरेबल्स:

बैंक के फ्लैटों की विनिर्देशों के अनुसार रंगाई-पुताई और मरम्मत करना तथा फ्लैटों को साफ करके सौंपना।

7. अनुबंध की अवधि:

कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। सफल बोलीदाता को कार्य सौंपे जाने के तुरंत बाद, मुंबई के मोरू महल स्थित फ्लैट का संबंधित कार्य कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा और साफ़ स्थिति में सौंप दिया जाएगा। इसके बाद, बोरीवली स्थित एनएचबी के 12 फ्लैटों का संबंधित कार्य, अधिभोगी वरिष्ठ अधिकारियों की सुविधानुसार और समय-समय पर बैंक के निर्देशों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। हालाँकि, कार्य का पूरा दायरा कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 4 महीनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

विक्रेता, निर्माण पूरा होने की तिथि से 12 महीनों तक किसी भी दोष के लिए उत्तरदायी होगा और इस वारंटी अवधि के दौरान बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के दोष की आवश्यक मरम्मत/सुधार करेगा। यदि दोष की सूचना देने के एक सप्ताह के भीतर मरम्मत/सुधार नहीं किया जाता है, तो एनएचबी बाज़ार से मरम्मत/सुधार करवाने के लिए स्वतंत्र होगा और आवश्यक वसूली रिटेंशन मनी से की जाएगी।

नोट:

यह आरएफपी उन कार्यों, गतिविधियों, जिम्मेदारियों और सेवाओं का वर्णन करने में संपूर्ण नहीं है जिनके लिए विक्रेता जिम्मेदार होगा। बोलीदाता, इस निविदा में भाग लेकर, स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है कि यदि कोई कार्य, गतिविधियां,

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मुंबई स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की रंगाई और मरम्मत का कार्य

जिम्मेदारियां या सेवाएं जो या तो इस आरएफपी में विशेष रूप से वर्णित नहीं हैं या विशेष रूप से वर्णित हैं, लेकिन नियामक/वैधानिक परिवर्तनों के कारण उपयुक्त परिवर्तन/संशोधन से गुजरना पड़ता है और अनुबंध के उचित प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आवश्यक या उपयुक्त कहा जाता है, ऐसे कार्य, गतिविधियां, जिम्मेदारियां या सेवाएं (लागू परिवर्तनों के साथ, यदि कोई हो) इस आरएफपी और बोलीदाता की प्रतिक्रिया के तहत सेवाओं के दायरे में निहित और शामिल मानी जाएंगी उसी सीमा तक और उसी तरह जैसे कि इस आरएफपी और बोलीदाता की प्रतिक्रिया में विशेष रूप से वर्णित हैं।

8. बोलीदाताओं के लिए निर्देश

8.1 सामान्य:-

- विकास, तैयारी, एवं प्रत्युत्तरों के प्रस्तुत करने से किसी भी प्रकार से संबद्ध सहित लेकिन जो बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शन, इत्यादि में उपस्थिति तक सीमित न हो एवं रा.आ. बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रदान करने में बोलीदाताओं द्वारा वहन की गई समस्त लागत एवं व्यय पूरी तरह एवं केवल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।
- बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अतिरिक्त, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी विधिक संबंध नहीं होंगे। बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौता के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथोक्त अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।
- प्रत्येक बोलीदाता मानेगा और स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक पात्र बोलीदाता को सूचीबद्ध करने/चयन करने के लिए प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए दस्तावेज में विनिर्दिष्ट चयन मानदंडों को अपने पूर्ण विवेक से लागू कर सकता है।
- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करते ही यह सुनिश्चित करना है, उसे आरएफपी और अस्वीकरण की शर्तें स्वीकार है।
- बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मुंबई स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की रंगाई और मरम्मत का कार्य

संपर्क व्यक्ति:

पुनीत चौहान
क्षेत्रीय प्रबंधक

puneet.chauhan@nhb.org.in

011-39187176

अमित सिन्हा

उप महाप्रबंधक

amit.sinha@nhb.org.in

011-39187122

- राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक से, निविदा/आरएफपी बंद होने के बाद भी किसी बोलीदाता/बोलीदाताओं से अतिरिक्त जानकारी या सामग्री मांग सकता है और प्रदान की गई ऐसी सभी जानकारी और सामग्री को उस बोलीदाता की प्रतिक्रिया का हिस्सा माना जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।
- यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सभी बोलीदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- प्रश्न/स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच (सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) बोलियां जमा करने की समय सीमा से पूर्व ऊपर दिये गए संपर्क व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं।
- बोलीदाता को बोली खोलने की तिथि और/या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि पर वित्तीय सेवा विभाग/व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय या राष्ट्रीय आवास बैंक में से किसी द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैकलिस्ट/प्रतिबंधित न किया गया हो।
- राष्ट्रीय आवास बैंक सभी चयनित बोलीदाताओं को उनके आरएफपी के परिणाम के बारे में यथाशीघ्र लिखित रूप में, डाक द्वारा या अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करके सूचित करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक ऐसी किसी भी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

8.2 बोली-पूर्व बैठक

इस निविदा/आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं की शंकाओं के समाधान हेतु, राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी में उल्लिखित तिथि और समय पर एक बोली-पूर्व बैठक आयोजित करने का इरादा रखता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न,

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मुंबई स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की रंगाई और मरम्मत का कार्य

लिखित रूप में, ऊपर दिए गए पते पर 17.08.2025 तक या उससे पहले ईमेल या डाक द्वारा पहुंच जाने चाहिए। कृपया ध्यान दें कि बोली-पूर्व बैठक के बाद किसी भी बोलीदाता के किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली-पूर्व बैठक में ही दिया जाएगा। केवल बोलीदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों को ही बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी।

ऑनलाइन बैठक के लिए लिंक: [Click here](#)

8.3 निविदा/आरएफपी दस्तावेज़ की सॉफ्ट कॉपी

निविदा/आरएफपी दस्तावेज़ की सॉफ्ट कॉपी राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी

<http://www.nhb.org.in>

8.4 विलोपन या परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी स्थिति में कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। “ठीक”, “स्वीकृत”, “नोट कर लिया”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरूपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ. बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.5 बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज़ में संशोधन

- बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय रा.आ. बैंक, किसी भी कारण, संशोधन या शुद्धिपत्र द्वारा बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज़ में सुधार कर सकता है।
- संशोधन राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर पोस्ट किया जाएगा
- सभी बोलीदाताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा बोली प्रस्तुत करने से पहले आरएफपी में संशोधन/वर्धन (यदि कोई है) पर विचार किया गया है। बोलीदाता द्वारा कोई भी चूक किए जाने के मामले में रा.आ. बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकानुसार बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा को आगे बढ़ा सकता है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मुंबई स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की रंगाई और मरम्मत का कार्य

- रा.आ. बैंक किसी भी संवादहीनता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अलावा रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी स्थिति में निविदा को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को छोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.6 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखित होंगे।

8.7 मास्कड वाणिज्यिक बोली

बोलीदाता को राष्ट्रीय आवास बैंक को अलग से प्रस्तुत की जा रही वास्तविक मूल्य बोली (राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार) की एक प्रति, वास्तविक मूल्यों को छिपाते हुए, प्रस्तुत करनी होगी। यह अनिवार्य है। यदि बोली को उचित रूप से छिपाकर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि 'मास्कड वाणिज्यिक बोली' का प्रारूप/विवरण (मूल्य को छोड़कर) प्रस्तुत वास्तविक वाणिज्यिक बोली के प्रारूप/विवरण से मेल नहीं खाता है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक वाणिज्यिक मूल्यांकन के समय बोली/निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.8 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निविदा में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास समय-समय पर निविदा में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

8.9 बोली से संबंधित दस्तावेज (कृपया प्रारूप में अलग से निर्धारित निर्देशों का पालन करें, यदि कोई हो)

निविदा आवेदन बोलीदाताओं द्वारा सीलबंद लिफाफे में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाएगा:

क . अलग सीलबंद लिफाफा जिसमें भाग क: तकनीकी बोली शामिल है:

1. विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुहर लगा हुआ आरएफपी दस्तावेज।
2. अनुलग्नक I में निर्धारित प्रारूप में बोलीदाता की जानकारी;
3. अनुबंध II में निर्धारित प्रारूप में बोलीदाता अनुभव विवरण;
4. अनुलग्नक III में निर्धारित प्रारूप में विवरण की घोषणा की गई;
5. अनुलग्नक IV में निर्धारित योग्यता पत्र का प्रारूप;
6. अनुबंध VA के साथ अनुबंध VI में निर्धारित प्रारूप में तकनीकी बोली कवरींग पत्र;
7. अनुबंध VB में निर्धारित प्रारूप में स्वच्छ ट्रेक रिकॉर्ड के संबंध में घोषणा;
8. अनुबंध VI में निर्धारित प्रारूप में तकनीकी बोली;

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मुंबई स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की रंगाई और मरम्मत का कार्य

9. अनुबंध VIII में निर्धारित प्रारूप में छिपी हुई वाणिज्यिक बोली;
10. अनुबंध IX में निर्धारित प्रारूप में ईसीएस अधिदेश;
11. अनुबंध X में निर्धारित सक्षमता पत्र प्रारूप;
12. अनुबंध XI में प्रारूप में रिजॉल्यूशन मैट्रिक्स;
13. अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता अनुबंध XII में दिए गए प्रारूप में (अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर स्पष्ट रूप से टाइप करके, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया जाना चाहिए और बाद में एनएचबी की ओर से उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। निष्पादन की तिथि बोलीदाता द्वारा बोली में उल्लिखित तिथि होनी चाहिए)
14. सेवा स्तर समझौता अनुबंध XIII में दिए गए प्रारूप में;
15. गोपनीयता-सह-अप्रकटीकरण समझौता अनुबंध XIV में दिए गए प्रारूप में;
16. बैंक गारंटी का प्रारूप अनुबंध XV में दिए गए प्रारूप में;
17. खंड 8.38 के अनुसार प्रमाणपत्र अनुबंध XVI में दिए गए प्रारूप में;
18. बोली सुरक्षा घोषणा अनुबंध XVII में दिए गए प्रारूप में;
19. सत्यनिष्ठा संहिता अनुबंध XVIII में दिए गए प्रारूप में;
20. 31.08.2025 तक वैध पैनल के साथ आरबीआई/एसबीआई/पीएसबी/एफआई से प्राप्त पैनल पत्र।

ख. अलग सीलबंद लिफाफा जिसमें भाग ख: वाणिज्यिक बोली शामिल है:

1. अनुलग्नक VII के अनुसार वाणिज्यिक बोली कवरिंग पत्र
2. अनुलग्नक VIII के अनुसार वाणिज्यिक बोली प्रारूप

ग. बाहरी सीलबंद लिफाफा

बाहरी सीलबंद लिफाफे में उपरोक्त दो लिफाफे (भाग क: तकनीकी बोली और भाग ख: वाणिज्यिक बोली) होने चाहिए, जिन पर " मुंबई स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की रंगाई और मरम्मत का कार्य " लिखा होना चाहिए।

नोट: ईएमडी राशि के बिना बोलियां तुरंत अस्वीकार कर दी जाएंगी।

8.10 बोली मुद्रा

बोलियाँ केवल भारतीय रुपये में ही उद्धृत की जाएंगी। भारतीय रुपये के अलावा अन्य मुद्राओं में प्रस्तुत बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मुंबई स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की रंगाई और मरम्मत का कार्य

8.11 बयाना राशि जमा (ईएमडी)

क. सभी बोलियों के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक के पक्ष में ई-भुगतान के माध्यम से 50,000/- रुपये (केवल पचास हजार रुपये) की वापसी योग्य ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा राशि (ईएमडी) संलग्न होनी चाहिए।

खातों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	प्रकार	विवरण
1	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी का पता	बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग, 45, वीर नरीमन रोड, फोर्ट, मुंबई-400001
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	केनरा बैंक
4	लाभार्थी के बैंक शाखा का पता	फोर्ट मेन, वार्डन हाउस, सर पीएम रोड, फोर्ट, मुंबई-400001
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी का बैंक खाता सं.	0239201003212
7	बैंक शाखा का आईएफएससी कोड	CNRB0000108
8	एमआईसीआर सं.	400015024

ख. भुगतान का प्रमाण संलग्न करके तकनीकी बोली वाले लिफाफे में डालना होगा; इसके अभाव में बोली पर आगे के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जा सकता। बोलीदाताओं को **अनुलग्नक -X** में संलग्न ईसीएस अधिदेश प्रपत्र भी विधिवत रूप से भरकर जमा करना होगा।

ग. एमएसई/स्टार्ट-अप बोलीदाताओं के लिए: सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई)/स्टार्ट-अप बोलीदाताओं को बोली सुरक्षा यानी बयाना राशि जमा (ईएमडी) जमा करने से छूट दी गई है। हालांकि, बोली सुरक्षा के बदले में, ऐसे बोलीदाताओं को “ईएमडी/बोली सुरक्षा घोषणा” प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें यह वचन दिया गया हो कि यदि वे बोली की वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेते हैं या संशोधित करते हैं, या यदि उन्हें अनुबंध प्रदान किया जाता है और वे प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अनुबंध/सेवा स्तर समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहते हैं, या निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय आवास बैंक के विवेक पर, भविष्य में किसी भी प्रस्ताव के अनुरोध में भाग लेने से कम से कम 1 वर्ष की अवधि के लिए निलंबित/ब्लैकलिस्टमें डाला जा सकता है। ऐसी घोषणा को **अनुलग्नक-XIV** में संलग्न प्रारूप के अनुसार, उनके संगठन के लेटर हेड पर उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगाकर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मुंबई स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की रंगाई और मरम्मत का कार्य

- घ. इसके अलावा, सफल बोलीदाता को कार्य आरंभ करने से पहले निष्पादन बैंक गारंटी के माध्यम से ईएमडी राशि के बराबर राशि सुरक्षा जमा के रूप में जमा करनी होगी।
- ङ. उचित रूप और तरीके से ईएमडी के बिना प्राप्त किसी भी बोली को अनुत्तरदायी माना जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- च. ईएमडी से छूट के किसी भी अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि भारत सरकार द्वारा ऐसी छूट प्रदान नहीं की जाती है।
- छ. इसमें या निश्चित समझौते में अन्यथा प्रावधान के अलावा, सभी असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि कार्य/अनुबंध के पुरस्कार के 30 दिन बाद या उससे पहले निविदा प्रक्रिया पूरी होने पर वापस कर दी जाएगी।
- ज. यहां या निश्चित समझौते में अन्यथा प्रदान की गई बातों को छोड़कर, सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि, आरएफपी की शर्तों के अनुसार, एसएलए के निष्पादन और कुल अनुबंध मूल्य के 50,000/- रुपये के मूल्य के पीबीजी जमा करने के बाद वापस कर दी जाएगी।
- झ. ईएमडी प्रतिभूति जब्त की जा सकती है:
- यदि बोलीदाता बोली की वैधता अवधि के दौरान अपनी बोलियां वापस ले लेता है;
 - यदि बोलीदाता कोई ऐसा बयान देता है या कोई ऐसा फॉर्म संलग्न करता है जो अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी भी समय झूठा/गलत निकलता है;
 - सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलीदाता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है; और
 - पूर्व-अनुबंध सत्यनिष्ठा समझौते के किसी भी उल्लंघन के मामले में।

8.12 कार्यान्वयन अनुसूची

- बोलीदाता सेवाओं की डिलीवरी के लिए जिम्मेदार होगा।

क्र.सं.	के लिए खरीद आदेश	वितरण अनुसूची (कार्य आदेश/कार्य सौंपने के पत्र की स्वीकृति की तिथि से)
1.	शुरुआती बैठक	2 दिन
2.	बांद्रा के मोरू महल स्थित बैंक के फ्लैट में पेंटिंग और मरम्मत का कार्य पूरा करने हेतु	15 दिन
3.	बोरीवली में पेंटिंग और मरम्मत का कार्य पूरा करने हेतु	3 महीने 15 दिन

- आरएफपी की शर्तों के अनुसार एसएलए के निष्पादन के बाद ही बिलिंग चक्र शुरू होगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मुंबई स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की रंगाई और मरम्मत का कार्य

8.13 प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी)

सफल बोलीदाता को अनुलग्नक-XV में निर्धारित प्रारूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी के रूप में 50,000/- रुपये मूल्य की प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रदान करने की आवश्यकता होगी। पीबीजी अनुबंध अवधि की समाप्ति के कम से कम 6 महीने बाद तक या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा तय की गई अन्य विस्तारित अवधि तक वैध होना चाहिए। पीबीजी को सफल बोलीदाता द्वारा श्रम कानूनों और किसी भी अन्य कानून/नियम/विनियमों सहित लागू वैधानिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन सहित आरएफपी टर्म/शर्तों में गैर-प्रदर्शन या डिफॉल्ट के जोखिम के खिलाफ राष्ट्रीय आवास बैंक के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। अनुबंध की शर्तों के सफल कार्यान्वयन में चूक, पीबीजी को लागू करने का वारंट कर सकती है, और यदि विक्रेता/बोलीदाता के किसी भी कार्य के परिणामस्वरूप परिसमाप्त क्षति/जुर्माना लगाया जाता है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक ऐसे बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शन बैंक गारंटी को लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आरएफपी शर्तों में गैर-निष्पादन या चूक के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक का निर्णय, जिसमें लागू वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन न करना आदि शामिल है, अंतिम होगा तथा सफल बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा।

8.14 बोलियों की वैधता की अवधि

- बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तावित मूल्य और अन्य शर्तें राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तिथि से 6 महीने की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों में बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी गई बोली प्रतिभूति घोषणा/ईएमडी को भी बढ़ाया जाएगा।

8.15 बोलियों का प्रारूप और हस्ताक्षर

प्रत्येक बोली दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी:

भाग I: इसमें न्यूनतम पात्रता मानदंड, तकनीकी बोली और मास्कड वाणिज्यिक बोली [बिना किसी मूल्य वाली बोलियाँ] शामिल हैं। उपरोक्त सामग्री को "तकनीकी प्रस्ताव" कहा जाएगा।

भाग II: इसमें केवल वाणिज्यिक बोली शामिल है, जिसे यहाँ "वाणिज्यिक प्रस्ताव" कहा गया है।

- मूल बोलियों को अमिट स्याही से टंकित या लिखा जाएगा एवं बोली लगाने वाले या बोली लगाने वाले को अनुबंध से जोड़ने के लिए विधिवत अधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को असंशोधित मुद्रित साहित्य को छोड़कर बोली के सभी पृष्ठों पर अपने आद्याक्षर करने होंगे।

8.16 बोलियों को सील करना और चिह्नित करना

- सभी लिफाफे नीचे दिए गए पते पर राष्ट्रीय आवास बैंक को भेजे जाने चाहिए:

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मुंबई स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की रंगाई और मरम्मत का कार्य

उप महाप्रबंधक

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय

राष्ट्रीय आवास बैंक

तीसरी मंजिल, बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग

45, वीर नरीमन रोड

फोर्ट, मुंबई – 400001, महाराष्ट्र

- सभी लिफाफों पर संपर्क नंबर के साथ बोलीदाता का नाम एवं पता लिखा होना चाहिए।
- बोलीदाता तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों वाले लिफाफों को अलग-अलग सील करेगा।
- लिफाफा बिना खिड़की वाला होना चाहिए और उस पर अलग से “मुंबई में स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की पेंटिंग और मरम्मत कार्य के लिए तकनीकी प्रस्ताव” और “मुंबई में स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की पेंटिंग और मरम्मत कार्य के लिए वाणिज्यिक प्रस्ताव” लिखा होना चाहिए, जैसा भी लागू हो।
- यदि लिफाफे मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गए हों तो बैंक बोली के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
- ऐसी बोली जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुई उन पर विचार नहीं किया जाएगा और उपाश्रय के बिना अस्वीकृत कर दिया हो जाएगा।

8.17 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

- बोलियां राष्ट्रीय आवास बैंक को निर्दिष्ट पते पर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।
- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि यदि रा.आ.बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जा सकती है।
- रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर सूचित करते हुए बोली दस्तावेजों को संशोधित करके बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा सकता है, उस स्थिति में, रा.आ.बैंक और बोलीदाता के सभी अधिकार और उत्तरदायित्व वृद्धित अंतिम तारीख तक पूर्ववत रहेंगे।

8.18 देर से प्राप्त बोलियां

रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित बोलियों को प्रस्तुत करने की समय सीमा के बाद रा.आ.बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और बोलीदाता को बिना खोले वापस कर दिया जाएगा।

8.19 रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तिथि और समय पर, बोलियां रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्धारित तिथि को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।
- तकनीकी बोलियां खोलने का स्थान: राष्ट्रीय आवास बैंक, तीसरी मंजिल, बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग, 45, वीर नरीमन रोड, मुंबई-400001
- बोलीदाता का नाम और अपेक्षित ईएमडी की उपस्थिति या अनुपस्थिति, आरएफपी लागत और ऐसे अन्य विवरण जिन्हें राष्ट्रीय आवास बैंक अपने विवेकानुसार उचित समझे, तकनीकी बोली खोलने के समय घोषित किए जाएंगे।

8.20 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (फैक्स /ईमेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

8.21 प्रारंभिक जांच

- रा.आ. बैंक यह देखने के लिए बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात /दस्तावेज संलग्न किये गये हैं एवं बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं आदि।
- रा.आ.बैंक, अपने विवेकानुसार, बोली में किसी भी मामूली कमी, गैर-अनुरूपता या अनियमितता को माफ कर सकता है जो भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है, बशर्ते ऐसी छूट किसी भी बोली लगाने वाला की सापेक्ष रैंकिंग को प्रभावित या पक्षपात नहीं करती है।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम है।

8.22 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संलग्न दस्तावेज तब तक रा.आ. बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ. बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

8.23 बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता रा.आ.बैंक द्वारा समुदेशित कार्य को रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतों को केवल अपनी सेवा/समर्थन अवसंरचना के माध्यम से ही निपटाएगा।

8.24 मूल्य संरचना और भिन्नता

- बोलीदाता को **अनुलग्नक VIII** में दी गई संरचना, यदि कोई हो, के अनुसार लागत मैट्रिक्स स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होगा। किसी भी विचलन पर बोली अस्वीकृत हो सकती है। साथ ही, वाणिज्यिक बोली के अलावा कोई अन्य विकल्प उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ भी विकल्प दिए गए हों, बोली अस्वीकृत की जा सकती है।
- वाणिज्यिक प्रस्ताव एक निश्चित मूल्य के आधार पर होगा। अनुबंध अवधि के दौरान सौंपे गए किसी भी कार्य के लिए करों (वर्तमान और भविष्य) को छोड़कर परामर्श लागत से संबंधित किसी भी मूल्य परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- वैधानिक संशोधन के अनुसार केवल वास्तविक जीएसटी का भुगतान किया जाएगा।
- परियोजना के कार्यान्वयन की तिथि, कार्य-पत्र की स्वीकृति की तिथि (आरंभ तिथि) या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित कोई अन्य तिथि होगी। यदि लागू हो, तो सहायक सेवाओं आदि के नवीनीकरण के लिए भी यही तिथि मान्य होगी।

8.25 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

इस परियोजना के अंतर्गत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए विक्रेता के पास मुंबई में उचित और पर्याप्त सहायता तंत्र होना चाहिए।

8.26 मैनुअल/ड्राइंग

विक्रेता को अनुबंध अवधि के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए संपूर्ण तकनीकी और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। सभी मैनुअल अंग्रेजी में होने चाहिए और उनमें प्रदान की गई सेवाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।

8.27 बोली मूल्यांकन

तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता, आरएफपी के पूर्व-योग्यता मानदंड के अनुसार, कार्यों को पूरा करने के लिए "अनुलग्नक VIII- वाणिज्यिक बोली" के अनुसार न्यूनतम प्रतिशत दर उद्धृत करते हुए, परियोजना के लिए चुना जाएगा।"

8.28 संशोधन एवं आहरण

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि बोलीदाता एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो, ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य माना जाएगा।
- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्व-बोली बैठक के बाद ही बोलियां जमा करें क्योंकि एक बार जमा की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद कोई बोली संशोधित नहीं की जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता बन जाता है तो बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या प्राप्त सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रा.आ. बैंक किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-रसीद/कोई भी वितरण न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

8.29 कीमतों का प्रकटीकरण

वाणिज्यिक बोली को छोड़कर, बोली के तकनीकी या अन्य भागों में किसी भी रूप में या किसी भी कारण से कीमतों का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर बोली अस्वीकृत की जा सकती है।

8.30 बोली लगाने वाली फर्मों के नियम और शर्तें

बोली लगाने वाली फर्मों को बोली पर अपनी स्वयं की शर्तें और नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है और यदि वे प्रस्तुत की जाती हैं तो उन्हें उनकी बोली का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

8.31 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

8.32 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

8.33 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाता के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में वेंडर की क्षमता एवं इस परियोजना में बोलीदाता की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

8.34 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये बोलीदाता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि वे किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाय। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाये।

8.35 विधि का अनुपालन

क. विक्रेता/बोलीदाता अपने, अपने व्यवसाय, अपने कर्मचारियों या उनके प्रति अपने दायित्वों और इस निविदा के सभी प्रयोजनों से संबंधित या उन पर लागू सभी कानूनों का पालन करने, उनका पालन करने, उनका अनुपालन करने और राष्ट्रीय आवास बैंक को सभी लागू कानूनों के बारे में सूचित करने का वचन देगा और राष्ट्रीय आवास बैंक और उसके मंचारियों/अधिकारियों/स्टाफ/कर्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों को ऐसा करने में उसकी ओर से किसी भी विफलता या चूक से और देयता के सभी दावों या मांगों और सभी परिणामों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा जो किसी भी चूक या उपरोक्त और उससे उत्पन्न होने वाले सभी अन्य वैधानिक दायित्वों के अनुरूप या अनुपालन करने में उसकी ओर से विफलता के कारण हो सकते हैं।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मुंबई स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की रंगाई और मरम्मत का कार्य

ख. विक्रेता को इस परियोजना के किसी भी उद्देश्य के लिए या किसी भी लागू कानून, सरकारी विनियमन/दिशानिर्देशों के तहत अपने स्वयं के व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक या अपेक्षित सभी सहमति, अनुमति, अनुमोदन, लाइसेंस आदि तुरंत और समय पर प्राप्त करने होंगे और परियोजना/अनुबंध की अवधि के दौरान उन्हें वैध और लागू रखना होगा, और ऐसा करने में किसी भी विफलता या चूक की स्थिति में, राष्ट्रीय आवास बैंक और उसके कर्मचारियों/अधिकारियों/कर्मचारियों/कर्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों को देयता के सभी दावों या मांगों और सभी परिणामों से क्षतिपूर्ति करनी होगी, क्षतिपूर्ति करनी होगी, हानिरहित रखना होगा, बचाव करना होगा, सुरक्षा प्रदान करनी होगी और पूरी तरह से मुआवजा देना होगा जो उपरोक्त और उससे उत्पन्न होने वाले अन्य सभी वैधानिक दायित्वों के अनुरूप होने या अनुपालन करने में उसकी ओर से किसी भी चूक या विफलता के लिए उत्पन्न हो सकते हैं या उत्पन्न हो सकते हैं और राष्ट्रीय आवास बैंक विक्रेता को उचित समय के भीतर देयता के ऐसे किसी भी दावे या मांग की सूचना देगा।

ग. यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन आदि से गुजरता है, तो इस अनुबंध को नई इकाई को सौंपा गया माना जाएगा और ऐसा कार्य इस अनुबंध के तहत विक्रेता के अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा।

8.36 बौद्धिक संपदा अधिकार

बोलीदाता वारंटी देता है कि विक्रेता के रूप में उसके चयन की स्थिति में: -

क. इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले इनपुट किसी भी तीसरे पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे, जिसमें कॉपीराइट, पेटेंट और किसी भी प्रकार के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं।

ख. यह आगे आश्वासन देता है कि डिलिवरेबल्स किसी भी तीसरे पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा, जिसमें कॉपीराइट, पेटेंट और किसी भी प्रकार के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं।

ग. यदि डिलिवरेबल्स किसी तीसरे पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन या अतिलंघन के दावे का विषय बन जाते हैं, तो बोलीदाता अपनी पसंद और खर्च पर: (ए) राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए ऐसे डिलिवरेबल्स का उपयोग जारी रखने का अधिकार प्राप्त करेगा; (बी) ऐसे डिलिवरेबल्स को गैर-उल्लंघनकारी बनाने के लिए उन्हें प्रतिस्थापित या संशोधित करेगा, बशर्ते कि प्रतिस्थापन या संशोधित डिलिवरेबल्स द्वारा उल्लंघनकारी डिलिवरेबल्स के समान कार्य किया जाए; या (सी) यदि उपयोग के अधिकार प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं या डिलिवरेबल्स को प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो डिलिवरेबल्स की वापसी स्वीकार करें और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने के अलावा समकक्ष उपकरण की खरीद के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किए गए प्रतिस्थापन लागत के साथ, ऐसे डिलिवरेबल्स के लिए बोलीदाता को भुगतान की गई किसी भी राशि के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रतिपूर्ति करें। इसमें निहित उपायों के बावजूद, यदि राष्ट्रीय आवास

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मुंबई स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की रंगाई और मरम्मत का कार्य

बैंक द्वारा प्रस्तावित समाधान का उपयोग करने में असमर्थता के कारण सेवा स्तर पूरा नहीं होता है तो बोलीदाता दंड के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।

- घ. बोलीदाता स्वीकार करता है कि राष्ट्रीय आवास बैंक के व्यावसायिक तर्क, कार्यप्रवाह, प्रत्यायोजन और निर्णय लेने की प्रक्रियाएँ व्यवसाय-संवेदनशील प्रकृति की हैं और इसलिए इन्हें सॉफ्टवेयर के अन्य ग्राहकों, एजेंटों या वितरकों को नहीं भेजा जाएगा। यदि परियोजना के दायरे में उल्लिखित परियोजना के वांछित उद्देश्य पूरे नहीं होते हैं और यदि प्रणाली आरएफपी में परिकल्पित विभिन्न आवश्यकताओं द्वारा समर्थित प्रक्रियाओं को सुगम बनाने में असमर्थ है, तो परियोजना को अपूर्ण माना जाएगा।

8.37 झूठा/अधूरा विवरण

यदि बोलीदाता द्वारा दिया गया कोई भी कथन/घोषणा गलत या असत्य या अपूर्ण साबित होती है या निविदा/बोली प्रक्रिया के किसी भी चरण में या उसकी बोली/निविदा स्वीकार किए जाने की स्थिति में, अनुबंध के किसी भी चरण में निविदा प्रदान करने से संबंधित कोई भी जानकारी छिपाई जाती है, तो उसकी/उनकी बोलियां(यों)/निविदा(यें)//अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त रद्द/निरस्त किया जा सकता है:

- क. यदि निविदा चरण में ऐसा विवरण पाया जाता है, तो उसकी कुल बयाना राशि/ईएमडी जब्त कर ली जाएगी और निविदा/बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- ख. यदि अनुबंध स्तर पर ऐसा कोई कथन पाया जाता है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक अपने विवेकानुसार पीबीजी का आह्वान करने सहित अनुबंध को समाप्त करने के लिए आरएफपी में दिए गए प्रावधान के अनुसार उचित कार्रवाई कर सकता है।

8.38 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध:

- भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने हेतु तभी पात्र होगा, जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत हो।
- यद्यपि, यदि बोलीदाता उसी देश से हैं (यदि भारत के साथ भूमि सीमा साझा कर रहे हों) जिस देश में भारत सरकार ने ऋण व्यवस्था लागू की हैं या जिसमें भारत सरकार विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ऐसे देशों की अद्यतन सूची के अनुसार परियोजनाओं के विकास में कार्य कर रही है, तो इस प्रकार का पंजीकरण इस आरएफपी के अंतर्गत पात्र होने हेतु अपेक्षित नहीं है।
- बोलीदाता को अनुलग्नक XVII में संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र नकली पाया जाता है तो यह निविदा के निरस्तीकरण का आधार बनेगा तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मुंबई स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की रंगाई और मरम्मत का कार्य

- इस खंड के प्रयोजन हेतु:

क. “बोलीदाता” (कुछ संदर्भों में 'निविदा', 'सलाहकार' अथवा 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) से तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, जिसमें सहायता संघ या संयुक्त उद्यम (जो कई व्यक्तियों या फर्मों या कंपनियों का संघ है), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो एतदपूर्व उल्लिखित बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आता, जिसमें किसी भी एजेंसी शाखा या कार्यालय को ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो खरीद प्रक्रिया में भाग लेता है, शामिल है।

ख. “इस आदेश के उद्देश्य हेतु “भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोलीदाता” का अर्थ: -

- (i) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत कोई इकाई; या
- (ii) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत कोई सहायक कंपनी या इकाई; या
- (iv) कोई इकाई जो ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से पर्याप्त रूप से नियंत्रित हो; या
- (v) कोई इकाई जिसका लाभकारी स्वामी ऐसे देश में स्थित हो; या
- (vi) ऐसी इकाई का कोई भारतीय (या अन्य) एजेंट; या
- (vii) कोई साधारण व्यक्ति जो ऐसे देश का नागरिक है; या
- (viii) सहायता संघ या संयुक्त उद्यम जहां सहायता संघ या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है।

ग. उपर्युक्त (ख) के प्रयोजन हेतु लाभकारी मालिक निम्नानुसार होगा।

- i. कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, स्वामित्व हित को नियंत्रित रखता है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है।

"स्वामित्व हित को नियंत्रित करने" का अर्थ है, कंपनी के शेयरों या पूंजी या लाभ के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

"नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या उनके शेयरहोल्डिंग या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के करार या वोटिंग करार सहित के आधार पर प्रबंधन या नीतिगत निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा;

- ii. साझेदारी फर्म के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मुंबई स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की रंगाई और मरम्मत का कार्य

एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, उसके पास साझेदारी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक पूंजी या लाभ की हकदारी का स्वामित्व है;

- iii. अनिगमित संघ या वैयक्तिकों के निकाय के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, जिसके पास संघ या वैयक्तिकों के निकाय की संपत्ति या पूंजी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;
- iv. जहां किसी भी साधारण व्यक्ति की पहचान उपर्युक्त (i) या (ii) या (iii) में नहीं की गयी है, लाभकारी मालिक प्रासंगिक साधारण व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद ग्रहण करता है;
- v. न्यास के मामले में, लाभकारी मालिक की पहचान में न्यास के प्रणेता, न्यासी, न्यास में पंद्रह प्रतिशत या इससे अधिक ब्याज के साथ लाभार्थी एवं कोई भी अन्य साधारण व्यक्ति जो नियंत्रण स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का उपयोग करता है, शामिल होगी।

घ. एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे के लिए कोई भी कार्य करने या तीसरे व्यक्ति के साथ डील करने में दूसरे व्यक्ति की जगह नियोजित होता है।

8.39 खरीद वरीयता

क. राष्ट्रीय आवास बैंक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) और अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) या महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई को मौजूदा सरकारी नीति/दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर स्वीकार्य/लागू क्रय वरीयता देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एमएसई और एससी/एसटी/महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई को क्रय वरीयता, मूल्य बोली के मूल्यांकन के समय एल1 विक्रेता की तुलना में उक्त एमएसई द्वारा उद्धृत मूल्य के आधार पर तय की जाएगी।

ख. राष्ट्रीय आवास बैंक मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप आदि से संबंधित विभिन्न सरकारी नीतियों/निर्देशों के तहत पात्र बोलीदाताओं को वरीयता देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.40 अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता

राष्ट्रीय आवास बैंक और बोलीदाता के बीच एक " अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा का समझौते" पर हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है। यदि उप-अनुबंध की अनुमति है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक, बोलीदाता और उप-ठेकेदार के बीच अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा का समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा। यह राष्ट्रीय आवास बैंक और बोलीदाताओं तथा/या उप-ठेकेदारों के बीच एक बाध्यकारी समझौता है। इस संधि के तहत, बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ निर्दिष्ट तरीके से कार्य पूरा करने के लिए सहमत होते हैं।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मुंबई स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की रंगाई और मरम्मत का कार्य

संभावित बोलीदाताओं द्वारा पूर्व - संविदा सत्यनिष्ठा का समझौते पर हस्ताक्षर करना बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक पूर्व-योग्यता है, हालाँकि, अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा का समझौते पर हस्ताक्षर करने से बोलीदाता को अनुबंध मिलने की गारंटी नहीं मिलती। अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा का समझौते, सफल बोलीदाता को दिए जाने वाले अनुबंध का एक हिस्सा मानी जाएगी। अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा संधि का प्रारूप **अनुलग्नक -XII** के अनुसार होगा।

इस संबंध में, रा.आ.बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से श्री जोजनेश्वर शर्मा(jojneswar.sharma@gmail.com) और श्री राजेंद्र श्रीवास्तव (aaremes@yahoo.com) को सत्यनिष्ठा समझौते के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया है।

अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा का समझौते में उल्लिखित प्रतिबंधों को बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं या उपक्रमों के किसी भी उल्लंघन के लिए लागू किया जाएगा।

बोलीदाताओं को आचार संहिता के कार्यान्वयन के लिए एक अनुपालन कार्यक्रम (अन्य अनैतिक व्यवहार और स्पष्ट रूप रिश्त के प्रयोग को अस्वीकार करना) बनाने की भी सलाह दी जाती है।

9 बोलियां (तकनीकी और वाणिज्यिक) और बोली मूल्यांकन पद्धति

केवल आरबीआई/एसबीआई/पीएसबी/एफआई के अंतर्गत सूचीबद्ध विक्रेता ही इस निविदा में भाग लेने के पात्र हैं और किसी अन्य बोलीदाता से प्राप्त बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और आगे के मूल्यांकन के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

10 वाणिज्यिक बोली मूल्यांकन

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे इस परियोजना के लिए निम्नलिखित वाणिज्यिक नियमों और शर्तों पर ध्यान दें।

10.1 कीमत

- क.** बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत में सभी प्रकार की लागतें शामिल होनी चाहिए।
- ख.** वाणिज्यिक बोली के अनुसार मूल्य में सभी कर (जीएसटी को छोड़कर), शुल्क, लेवी प्रभार, परिवहन, बीमा शामिल होना चाहिए।
- ग.** बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य, बोलीदाता द्वारा अनुबंध के निष्पादन की अवधि, अर्थात् एक वर्ष की अवधि के लिए, स्थिर रहेगा। अनुबंधित दरों और वार्षिक निष्पादन समीक्षा के आधार पर, यदि आवश्यक हो, तो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा सेवाओं को दो वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
- घ.** समायोज्य मूल्य उद्धरण के साथ प्रस्तुत बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मुंबई स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की रंगाई और मरम्मत का कार्य

ड. अनुबंधित दरों के आधार पर, राष्ट्रीय आवास बैंक अपने विवेकानुसार पुनः ऑर्डर दे सकता है।

च. किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता के लिए, वाणिज्यिक प्रस्ताव में उल्लिखित अनुबंधित दर पर और इस आरएफपी की लागू शर्तों के अनुसार ऑर्डर दिया जाएगा। ऑर्डर स्वीकार न करने पर राष्ट्रीय आवास बैंक के विवेक पर जुर्माना लगाया जाएगा और इस आरएफपी को समाप्त कर दिया जाएगा।

10.2 भुगतान की शर्तें

कोई भी भुगतान केवल पीबीजी जमा करने और एसएलए पर हस्ताक्षर करने के बाद ही निम्नलिखित भुगतान शर्तों के अनुसार जारी किया जाएगा।

भुगतान शर्तें इस प्रकार हैं:

7 फ्लैटों की पेंटिंग और मरम्मत का काम पूरा होने के बाद, बैंक अपने पूर्ण विवेक पर, कार्य आदेश मूल्य के 50% तक का एकमुश्त भुगतान जारी कर सकता है। बैंक के आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित संपूर्ण कार्य पूरा होने के बाद, बिल राशि का 95% जारी किया जाएगा। आपूर्ति की गई वस्तु की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए बैंक आवश्यक परीक्षण प्रमाणपत्र/घोषणा/दस्तावेज मांग सकता है। बिल राशि का शेष 5% बैंक द्वारा अपने पास रखा जाएगा और इस आरएफपी के खंड 7 में परिभाषित 12 महीने की वारंटी अवधि पूरी होने के बाद जारी किया जाएगा।

10.3 अनुबंध समाप्ति के मामले में भुगतान

आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि अनुबंध समाप्त हो जाता है, तो सेवाओं के लिए भुगतान, लागू जुर्माना और टीडीएस/अन्य लागू करों की कटौती के बाद, प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।

11 सामान्य नियम और शर्तें

11.1 बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आरएफपी और इसके अनुलग्नकों में दिए गए सभी निर्देशों, प्रपत्रों, शर्तों और विशिष्टताओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले। आरएफपी दस्तावेजों में निर्धारित प्रारूप में आवश्यक सभी जानकारी प्रस्तुत न करने, या पर्याप्त रूप से उत्तरदायी न होने वाले प्रस्ताव प्रस्तुत करने, या इस आरएफपी दस्तावेज के उत्तर के रूप में अनावश्यक अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने पर प्रस्ताव अस्वीकृत हो सकता है।

11.2 राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आरएफपी में किए गए सभी संशोधन आरएफपी का अभिन्न अंग बन जाएंगे और उन्हें राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा। बोलीदाताओं को ऐसे किसी भी संशोधन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट पर नज़र रखनी होगी।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मुंबई स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की रंगाई और मरम्मत का कार्य

- 11.3** बोलीदाताओं को परियोजना के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्ताव तैयार करते समय इस आरएफपी दस्तावेज की प्रत्येक पंक्ति को ध्यान में रखना होगा। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे प्रतिक्रिया/बोली जमा करने से पहले राष्ट्रीय आवास बैंक से किसी भी मुद्दे का स्पष्टीकरण प्राप्त कर लें। प्रस्तुत बोलियाँ परियोजना के अंतर्गत सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हर दृष्टि से पूर्ण होनी चाहिए। अनुबंधित अवधि के दौरान कार्य के दायरे के अनुसार सभी कार्य पूरा करना सफल बोलीदाता की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। यदि किसी आवश्यकता को कम करके आंका जाता है या किसी आवश्यकता की सही परिप्रेक्ष्य में व्याख्या नहीं की जाती है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 11.4** राष्ट्रीय आवास बैंक को आवश्यकता विनिर्देशों को बदलने और बिना कोई कारण बताए संशोधित बोलियाँ या निविदा प्रक्रिया मांगने का अधिकार सुरक्षित है।
- 11.5** राष्ट्रीय आवास बैंक इस आरएफपी के प्रत्युत्तर में प्राप्त न्यूनतम या किसी अन्य प्रस्ताव/बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा और बिना कोई कारण बताए, देरी से प्राप्त या अपूर्ण प्रस्तावों सहित किसी भी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का हकदार होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक अनुबंध के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी बोलीदाता से मिलने और चर्चा करने, या किसी भी अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक का निर्णय अंतिम है और इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- 11.6** अनुबंध में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, राष्ट्रीय आवास बैंक अनुबंध के तहत उपलब्ध अन्य उपायों के अलावा या अन्यथा निष्पादन बैंक गारंटी को लागू करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि सफल बोलीदाता अनुबंध / आदेश की किसी भी शर्त को पूरा करने में विफल रहता है या अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है।
- 11.7** सभी प्रकार से अनुबंध के अंतर्गत कार्यों के निष्ठापूर्वक एवं संतोषजनक निष्पादन पर, सफल बोलीदाता का पीबीजी, यदि किसी कारणवश जब्त नहीं किया गया हो, तो कार्य/अनुबंध के पूरा होने/निष्पादित होने के 30 दिनों की अवधि के बाद राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी कर दिया जाएगा।
- 11.8** बोलीदाता को परियोजना/अनुबंध के लिए अपेक्षित योग्यता, अनुभव, कौशल आदि से युक्त जनशक्ति तैनात करनी होगी।
- 11.9** राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी अतिरिक्त जानकारी को मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है और किसी भी बोलीदाता के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है यदि राष्ट्रीय आवास बैंक की राय में, प्रस्तुत जानकारी अपूर्ण है या बोलीदाता अनुबंध के लिए योग्य नहीं है।
- 11.10** प्रस्ताव का दायरा एकल बिंदु उत्तरदायित्व के आधार पर होगा, जो इस आरएफपी के तहत निर्दिष्ट उत्पादों और सेवाओं को एंड-टू-एंड समाधान के आधार पर पूरी तरह से कवर करेगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मुंबई स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की रंगाई और मरम्मत का कार्य

11.11 वाणिज्यिक एवं तकनीकी बोलियों के सभी पृष्ठों पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए। हस्ताक्षर रहित बोलियों को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

11.12 प्रस्ताव/बोली प्रस्तुत करके, बोलीदाता, उसे दिए गए किसी भी कार्य के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ अनुबंध का शीघ्र निष्पादन करने के लिए सहमत होता है। यदि बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ वैध अनुबंध/सेवा स्तर समझौता निष्पादित करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक बोलीदाता के प्रति किसी भी दायित्व से मुक्त हो जाएगा, और किसी अन्य बोलीदाता का चयन किया जा सकता है।

11.13 सेवा का समय और गुणवत्ता इस अनुबंध/अनुबंध का सार है। इनका पालन न करना अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।

11.14 जुर्माना

यदि विक्रेता निर्धारित समय के भीतर परियोजना को पूरा करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक विक्रेता के कारण प्रत्येक सप्ताह की देरी या उसके हिस्से के लिए कार्य आदेश मूल्य का 1% जुर्माना लगाएगा, जो आदेश मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन होगा। सप्ताह के अंश को सप्ताह के संदर्भ में देरी का पता लगाने के लिए एक पूर्ण सप्ताह के रूप में माना जाना है। एक बार अधिकतम सीमा पूरी हो जाने पर, राष्ट्रीय आवास बैंक आदेश को रद्द करने पर विचार कर सकता है।

इसके अलावा, यदि विक्रेता गुणवत्ता मानकों/आवेदन प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहता है, तो बैंक द्वारा उचित समझे जाने पर और बैंक के आर्किटेक्ट द्वारा अनुशंसित अनुसार, बैंक उचित जुर्माना भी लगाएगा। जुर्माना लगाने के निर्णय की सूचना आरबीआई/एसबीआई/पीएसबी/वित्तीय संस्थानों को भी दी जाएगी।

11.15 कार्मिकों को हटाना और/या प्रतिस्थापित करना

यदि राष्ट्रीय आवास बैंक को पता चलता है कि किसी कार्मिक ने (i) गंभीर कदाचार किया है या उस पर आपराधिक कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है, या (ii) किसी कार्मिक के प्रदर्शन से असंतुष्ट होने का उचित कारण है, तो विक्रेता एनएचबी के लिखित अनुरोध पर, इसके कारणों को निर्दिष्ट करते हुए, एनएचबी को स्वीकार्य योग्यता और अनुभव वाले व्यक्ति को तुरंत प्रतिस्थापन के रूप में उपलब्ध कराएगा।

11.16 कार्य आदेश/कार्य-निर्णय पत्र की स्वीकृति

राष्ट्रीय आवास बैंक सफल बोलीदाता को लिखित रूप में कार्य-आदेश पत्र/कार्य-आदेश पत्र दो प्रतियों में जारी करके सूचित करेगा। सफल बोलीदाता को कार्य-आदेश पत्र/कार्य-आदेश की तिथि से एक कार्यदिवस के भीतर इसकी प्रतिलिपि राष्ट्रीय आवास बैंक को विधिवत स्वीकृत और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित करके लौटानी होगी। हालाँकि, यदि निर्धारित

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मुंबई स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों की रंगाई और मरम्मत का कार्य

अवधि के भीतर इसे स्वीकार नहीं किया जाता है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक को कार्य-आदेश पत्र/कार्य-आदेश को रद्द करने का अधिकार है।

11.17 निश्चित समझौता

सफल बोलीदाता अनुबंध पत्र (एलओए) के 15 दिनों के भीतर या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा तय की गई विस्तारित अवधि के भीतर राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ अनुबंध XIII में दिए गए प्रारूप में सेवा स्तर समझौते (एसएलए) और अनुलग्नक XIV में गोपनीयता सह गैर-प्रकटीकरण समझौते (एनडीए) पर हस्ताक्षर करेगा। इस आरएफपी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप अनुबंध/अनुबंधों के निष्पादन के संबंध में सभी व्यय, स्टाम्प शुल्क और अन्य शुल्क/खर्च सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे। बोर्ड के प्रस्ताव या मुख्तारनामा की प्रति, जहाँ भी लागू हो, यह दर्शाते हुए प्रस्तुत की जानी चाहिए कि हस्ताक्षरकर्ता को स्वीकृति पत्र, अनुबंध और गैर-प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है।

11.18 कर

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवा अवधि के दौरान प्रचलित वैधानिक दरों के अनुसार वास्तविक आधार पर केवल जीएसटी का भुगतान किया जाएगा। अन्य सभी लागू कर बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे। राष्ट्रीय आवास बैंक विक्रेता को किए गए भुगतान के संबंध में लागू कानून/नियमों के अनुसार स्रोत पर आवश्यक कर कटौती करने के लिए अधिकृत है।

11.19 परिसमाप्त क्षतियाँ

यदि विक्रेता राष्ट्रीय आवास बैंक की संतुष्टि के अनुसार, सहमत विनिर्देशों और शर्तों के अनुसार अनुबंध का उचित निष्पादन पूरा करने में विफल रहता है या सहमत शर्तों के अनुसार परियोजना/अनुबंध को पूरा किए बिना ही उसे छोड़ देता है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से परिसमाप्त क्षतिपूर्ति के रूप में हर्जाना वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है, लेकिन जुर्माने के रूप में नहीं। यह स्पष्ट किया जाता है कि परिसमाप्त क्षतिपूर्ति, खंड 11.15 के तहत लगाए गए जुर्माने, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगी।

11.20 अनुबंध दस्तावेजों और सूचना का उपयोग

बोलीदाता/सफल बोलीदाता, राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, अनुबंध के निष्पादन के प्रयोजनों को छोड़कर, बोली दस्तावेज में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रदान किए गए किसी भी दस्तावेज या जानकारी का उपयोग नहीं करेगा।

11.21 असाइनमेंट

बोलीदाता/सफल बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, अनुबंध के तहत निष्पादित करने के अपने दायित्वों को पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी को नहीं सौंपेगा/उप-अनुबंध नहीं करेगा।

11.22 अनुबंध की अवधि

यह अनुबंध कार्य आदेश/कार्य सौंपे जाने की तिथि से 1 वर्ष तक वैध रहेगा तथा सभी डिलिवरेबल्स कार्य आदेश की स्वीकृति की तिथि से 4 महीने के भीतर वितरित कर दिए जाने चाहिए।

11.23 सार्वजनिक खरीद के लिए सत्यनिष्ठा संहिता:

बोलीदाताओं को बोली दस्तावेजों में सार्वजनिक खरीद हेतु सत्यनिष्ठा संहिता के पालन की घोषणा पर हस्ताक्षर करने होंगे। घोषणा का प्रारूप और सार्वजनिक खरीद हेतु सत्यनिष्ठा संहिता **अनुलग्नक-XVIII** में संलग्न हैं। इस संहिता का उल्लंघन करने पर, बोलीदाता को न केवल पैनल सूची से हटाया जा सकता है, बल्कि उस पर अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, जैसे अनुबंध रद्द करना, प्रतिबंध और ब्लैकलिस्ट में डालना या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में कार्रवाई आदि।

11.24 निषेध/ब्लैकलिस्टिंग

यदि बोलीदाता सार्वजनिक खरीद हेतु सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन करता है, तो उसे प्रतिबंधित/ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। बोलीदाता को किसी अन्य कार्य या चूक के लिए भी प्रतिबंधित किया जा सकता है, जो राष्ट्रीय आवास बैंक की राय में, पूर्व-अनुबंध सत्यनिष्ठा संधि के प्रावधानों का उल्लंघन, घटिया सामग्री की आपूर्ति, सामग्री की आपूर्ति न होना, कार्यों का परित्याग, कार्यों की घटिया गुणवत्ता, घोषणाओं का पालन न करना आदि जैसे कारणों से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

अनुलग्नक हेतु कृपया अंग्रेजी आरएफपी का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

(किसी भी विवाद की स्थिति में इस दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा)